



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 चैत्र, 1940 (श०)

संख्या- 398 राँची, शुक्रवार,

6 अप्रैल, 2018 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

15 जुलाई, 2017 ई०।

संख्या-05/NSA/01/2/2014-4058-- चूँकि झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि गिरिडीह जिला में अपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरुद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना समान्तया दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निरुद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा, अधिनियम, 1980 (सं०-65/1980) की धारा 03 की उपधारा (03) के अंतर्गत प्रद शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्य के गिरिडीह जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त नियम की धारा 03 की उपधारा (02) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी तीन माह तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय,  
सरकार के अवर सचिव।